



भारत का राजपत्र The Gazette of India साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27—जून 2, 2006 (ज्येष्ठ 6, 1928)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27—JUNE 2, 2006 (JYAISTHA 6, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 11 मई 2006

सं. एसबीडी क्र. 01/2006-07.--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 29, उपधारा (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री कुमारगिरि सीतारामम को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

यूको बैंक

कोलकाता, दिनांक 24 अप्रैल 2006

एस. ओ. ओएसआर/1/2006 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1970 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- i) ये विनियम यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2005 कहलाएंगे।
- ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 6 के उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उप विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले पदों के प्रवर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, बैंक की प्रत्येक शाखा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत की जाएगी।"

बी. पी. सिंह
महाप्रबंधक
कार्मिक

- नोट : 1. मूल विनियम एसओ सं. ओएसआर/1/1996 दिनांक 25.1.1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
2. तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे।

क्रमांक	एस. ओ. सं.	दिनांक
1.	ओएसआर/1/97	18.10.1997
2.	ओएसआर/1/99	24.04.1999
3.	ओएसआर/2/99	23.10.1999
4.	ओएसआर/1/2001	02.06.2001
5.	ओएसआर/1/2003	26.04.2003

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2006

संख्या: एन-15/13/1/6/2000-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मई, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **आन्ध्र प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **आन्ध्र प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“आन्ध्र प्रदेश - श्रीकाकुलम जिले के रणस्थलम मंडल के अन्तर्गत आनेवाले सभी राजस्व ग्राम- पैडिभीमवरम, देवनिपालवलसा, चिट्टिवलसा, बोइपालेम, नरुवु, अक्कय्यपालेम, मेंटाडा, वरसम, नेलिवाडा, पिशिनी, कोस्ता, वेल्लभरावपेट, बंटुपल्ली, संचम, अर्जुनवलसा, गिरिवानिपालेम ।”

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/13/01/2005-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 मई, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **उत्तर प्रदेश** कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **उत्तर प्रदेश** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

राजस्व ग्रामराजस्व परगनाराजस्व तहसीलजिला

जिला हाथरस, परगना एवं तहसील सासनी के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम महमदपुर बरसाई, अजरोही, रूहेरी तथा नगला उमेद तथा जिला, परगना एवं तहसील हाथरस के राजस्व ग्राम खन्दारीगढ़ी ।

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/11/4/2006-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने **01 मई, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा **पंजाब** कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-**1955** में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ **पंजाब** राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	गाहलेवाल	166	लुधियाना	लुधियाना
2.	काकोवाल	80	लुधियाना	लुधियाना
3.	धुआखां जागीर	147	कपूरथला	कपूरथला
4.	देहर	224	राजपुरा	पटियाला
5.	रानियां	266	लुधियाना	लुधियाना

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 अप्रैल 2006

एच.आर.डी./पी-IV/1(5)/98/आर.आर. - कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उप धारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड गजट अधिसूचना संख्या पी-IV/1(5)/98/आर.आर. दिनांक 01 जून, 2002 के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करता है, अर्थात् :-

- (1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी) संशोधन भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- (3) कर्मचारी भविष्य निधि (आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 के साथ संलग्न अनुसूची की कॉलम-12 के अन्तर्गत उप पैराग्राफ (iii) में वाक्य के अन्त में "तथा" शब्द के स्थान पर 'या' शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा (ख) से पहले (iii) के बाद (IV) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :-
(IV) 5500-9000 रूपए के वेतनमान में सात वर्ष की नियमित सेवा तथा

आ. विश्वनाथन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

एच.आर.डी./पी-IV/1(5)/98/आर.आर. - कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5(घ) की उप धारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड गजट अधिसूचना संख्या पी-IV/1(6)/98 दिनांक 01 जून, 2002 द्वारा अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (सहायक लेखाधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करता है, अर्थात् :-

- (1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (सहायक लेखाधिकारी) संशोधन भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- (3) कर्मचारी भविष्य निधि (सहायक लेखाधिकारी) भर्ती नियम, 2002 के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम-12 के अन्तर्गत उप पैराग्राफ (ii) में वाक्य के अन्त में "तथा" शब्द के स्थान पर "या" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा तथा (ख) से पहले (ii) के बाद (iii) के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :-
(iii) 5000-8000 रूपए के वेतनमान में सात वर्ष की नियुक्ति सेवा तथा

आ. विश्वनाथन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA**Mumbai, the 11th May 2006****SBD/01/2006-07**

In pursuance of Section 29(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Travancore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri Komaragiri Sitaramam as Managing Director of State Bank of Travancore for a period of two years with effect from the date he assumes charge.

A. K. PURWAR
Chairman

—+—

UCO BANK

Kolkata, the 24th April 2006

S.O.OSR/1/2006 in exercise of the powers conferred by Section-19 read with Sub-section (2) of Section-12. of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act. 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the Bank Officers' Service Regulations 1979, namely :-

1. Short title and commencement :-

- i) These Regulations may be called the UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations 2005.
- ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979, for Sub-Regulation (2) of Regulation-6, the following Sub-Regulation shall be substituted namely:

"(2) For the purpose of categorisation of the posts under Sub-Regulation (1), every branch of the Bank shall be classified by the Bank, in accordance with the criteria to be approved by the Board of the Bank. "

V. P. SINGH
General Manager
(Personnel)

- Note: 1. The Principal Regulation were published vide SO No.OSR/1/1996 dated 25.01.1997
2. Subsequently amended vide the following notification:

S.No.	S.O. No.	Dated
1	OSR/1/97	18/10/1997
2	OSR/1/99	24/04/1999
3	OSR/2/99	23/10/1999
4	OSR/1/2001	02/06/2001
5	OSR/1/2003	26/04/2003

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 11th May 2006

No. N-15/13/1/6/2000-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Pydibhimavaram, Devanipalavalasa, Chittivalasa, Boyepalem, Naruvu, Akkayyapalem, Mentada, Varasam, Nelivada, Pishini, Kosta, Vellabharaopeta, Bantupally, Sancham, Arjunavalasa, Girivanipalem of Ranasthalam Mandal of Srikakulam District of Andhra Pradesh."

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

No. N-15/13/13/01/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely

<u>Revenue village</u>	<u>Revenue Pargana</u>	<u>Tehsil</u>	<u>District</u>
------------------------	------------------------	---------------	-----------------

"Area comprising in the Revenue Villages Mahmaddpur barsai, Ajrohi, Ruhari and Nagla Ummed of Revenue Pargana and Tehsil Sasni District Hathras and revenue village Kandarigarhi of revenue Pargana, Tehsil and District of Hathras.

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

No. N-15/13/11/4/2006-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Gahlewal	166	Ludhiana	Ludhiana
2.	Kakowal	80	Ludhiana	Ludhiana
3.	Dhuankha Jagir	147	Kapurthala	Kapurthala
4.	Dehar	224	Rajpura	Patiala
5.	Rania	266	Ludhiana	Ludhiana

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANIZATION

New Delhi-110 066, the 28th April 2006

HRD/P-IV/1(5)98/RR – In exercise of the Powers conferred by Sub-section 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby amends the Employees' Provident Fund Organization (Zonal Audit Officer) Recruitment Rules, 2002, notified vide Gazette Notification No. P-IV/1(5)98/RR dated 01st June, 2002 namely:-

- (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organization (Zonal Audit Officer), Amendment Recruitment Rules, 2006.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
- (3) Under Column – 12 of the Schedule attached to the Employees' Provident Fund (Zonal Audit Officer) Recruitment Rules, 2002 the word "and" appearing at the end of sentence in Sub-Paragraph (iii) shall be substituted by "or" & the following shall be inserted as (iv) after (iii) and before (B):-
- (iv) With seven years regular service in the pay scale of Rs.5500-9000, and

A. VISWANATHAN
Central Provident Fund Commissioner

HRD/P-IV/1(5)98/RR – In exercise of the Powers conferred by Sub-section 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby amends the Employees' Provident Fund Organization (Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2002, notified vide Gazette Notification No. P-IV/1(6)98/RR dated 01st June, 2002 namely:-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organization (Assistant Audit Officer), Amendment Recruitment Rules, 2006.
2. They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
3. Under Column – 12 of the Schedule attached to the Employees Provident Fund (Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2002 the word “and” appearing at the end of sentence in Sub-Paragraph (ii) shall be substituted by “or” & the following shall be inserted as (iii) after (ii) and before (B):-

(iii) With seven years regular service in the pay scale of Rs.5000-8000;
and

A. VISWANATHAN
Central Provident Fund Commissioner